

बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन
केंद्रीय मुख्यालय

दूरभाष: 011-25705385

फैक्स: 011-25894862

पी. अभिमन्यु
महासचिव

मुख्य मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि यूनियन
दादा घोष भवन, 2151/1, न्यू पटेल नगर,
शादीपुर बस डिपो के सामने, नई दिल्ली-110008

ई-मेल: bsnleuchq@gmail.com, वेबसाइट: www.bsnleu.in

बीएसएनएलईयू/113(हड़ताल)

10.03.2022

प्रति,

- (1) श्री के. राजारमन,
सचिव, दूरसंचार,
दूरसंचार विभाग,
संचार मंत्रालय,
संचार भवन, 20, अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001.
- (2) श्री पी.के. पुरवार,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत संचार निगम लिमिटेड,
भारत संचार भवन,
एच.सी. माथुर लेन,
जनपथ, नई दिल्ली - 110001.

महोदय,

विषय:- 28 व 29 मार्च, 2022 को आम हड़ताल की सूचना के संबंध में।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र क्षेत्रीय अखिल भारतीय फेडरेशनों और एसोसिएशनों के संयुक्त मंच ने दो दिवसीय आम हड़ताल का आह्वान किया है जो 28 और 29 मार्च, 2022 को आयोजित होने वाली है। BSNLEU इस संयुक्त मंच का एक हिस्सा है। अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 22 की उप-धारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नलिखित मांगों पर आम हड़ताल पर जाने के लिए नोटिस जारी किया जाता है: -

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की मांगें:

- 1) श्रम संहिताओं को समाप्त करो; ईडीएसए को खत्म करो।
- 2) कृषि कानूनों के निरस्त होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के 6 सूत्री चार्टर मांग को स्वीकार करो।
- 3) किसी भी रूप में निजीकरण नहीं और एनएमपी को रद्द करो।
- 4) गैर-आयकर भुगतान करने वाले परिवारों को प्रति माह 7,500/- रुपये की खाद्य और आय सहायता प्रदान करो।
- 5) मनरेगा के लिए आवंटन में वृद्धि और शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना का विस्तार करो।
- 6) सभी अनौपचारिक क्षेत्र के मज़दूरों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करो।
- 7) आंगनवाड़ी, आशा, मध्याह्न भोजन और अन्य योजना मज़दूरों के लिए वैधानिक न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करो।
- 8) महामारी के बीच लोगों की सेवा करने वाले फ्रंटलाइन मज़दूरों के लिए उचित सुरक्षा और बीमा सुविधाएं प्रदान करो।
- 9) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और सुधारने के लिए संपत्ति कर आदि के माध्यम से अमीरों पर कर लगाकर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोगिताओं में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करो।
- 10) पेट्रोलियम उत्पाद पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में पर्याप्त कमी और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए ठोस उपचारात्मक उपाय करो।

- 11)संविदा मज़दूरों, योजना मज़दूरों को नियमित करो और सभी को समान काम के लिए समान वेतन दो।
- 12)एनपीएस को रद्द करो और पुरानी पेंशन की बहाली करो; कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन में पर्याप्त वृद्धि करो।

बीएसएनएल कर्मचारियों की मांगें:

- 1) उपकरण खरीदने में बीएसएनएल के साथ भेदभाव न करें - तुरंत बीएसएनएल का 4जी लॉन्च करें - 5जी की समय पर लॉन्चिंग सुनिश्चित करें।
- 2) राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन को रद्द करो। बीएसएनएल के मोबाइल टावरों और ऑप्टिक फाइबर का मुद्राकरण नहीं करो।
- 3) बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन लागू करो।
- 4) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन संशोधन लागू करो।
- 5) छंटे गए ठेका मज़दूरों को फिर से नियुक्त करो- उनके बकाया वेतन का तुरंत भुगतान करो।

आपको धन्यवाद,

सादर,

[पी. अभिमन्यु]

महासचिव

संलग्नक: हड़ताल नोटिस का अनुलग्नक

प्रति:

- (1) श्री अजय कुमार सामंतराय, मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग नई दिल्ली-110001
- (2) सुश्री अनीता जौहरी, पीजीएम (एसआर), बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय, भारत संचार भवन, जनपथ, नई दिल्ली -01